



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 9—मार्च 15, 2013 (फाल्गुन 18, 1934)

No. 10]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 9—MARCH 15, 2013 (PHALGUNA 18, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2013

सेना शाखा

सं. 95, दिनांक 14 फरवरी 2013-- राष्ट्रपति सहर्ष यथासंशोधित थल
सेना अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

हेमंत भारद्वाज (एमआर-08827एल), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

[वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 16 दिसम्बर 2002 से हो
जाएगी इसमें पीजी डिग्री (फॉरेनसिक मेडिसिन) के लिए दी गई
36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी
जाएगी परन्तु उपादान के लिए नहीं मानी जाएगी।]

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 दिसम्बर 2009 में प्रकाशित

रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है,
रद्द किया जाता है)

राजवीर सिंह

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

थल सेना शाखा

सं. 96, दिनांक 14 फरवरी 2013-- राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

विंग कमांडर ए जोशी (एमआर-05662एम) (एएफ-19335के),
01 जून 2012

विंग कमांडर पी के शर्मा (एमआर-06458ए) (एएफ-19323एस),
15 जून 2012

विंग कमांडर साधना जोशी (एमआर-06461ए) (एएफ-19978जी),
02 जुलाई 2012

विंग कमांडर के पद पर

विजई एम एन (एमआर-08285एम) (एएफ-26064), 11 जनवरी
2012

संतोष कुमार एस एच (एमआर-08219के) (एएफ-26472),
04 जुलाई 2012

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

रश्मी मोरे (एमआर-07477एक्स) (एफ-26044एन), 13 जुलाई
2012

लेफ्टि कर्नल के पद पर

भास्कर मुखर्जी (एमआर-07420एच), एएमसी, 15 फरवरी 2012
सोनाली अमित यादव (एमआर-08525वाई), एएमसी, 29 मार्च
2012

धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह (एमआर-08526एफ), एएमसी, 28 अगस्त 2012
गोपाल सिंह (एमआर-4960डब्ल्यू), एएमसी, 01 जून 1998

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 14 नवम्बर 1998 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है,
रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि कमांडर के पद पर

विपिन कवात्रा (एमआर-09055एल) (75942डब्ल्यू), एएमसी,
22 जनवरी 2011

मेजर के पद पर

गोपाल सिंह (एमआर-4960डब्ल्यू), एएमसी, 01 जून 1989

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 मार्च 1990 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है,
रद्द किया जाता है)

हेमंत भारद्वाज (एमआर-08827एल), एएमसी, 16 दिसम्बर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 19 जून 2010 में प्रकाशित रक्षा
मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द
किया जाता है)

त्रहुराज कोताकी (एमआर-9323के), एएमसी, 26 अगस्त 2012
कुनाल किशोर (एमआर-08602एच), एएमसी, 30 जुलाई 2012
विट्टल तदाकनाहल्ली (एमआर-09278एच), एएमसी, 12 अगस्त
2012

अश्वनी के पाण्डेय (एमआर-08603एल), एएमसी, 11 अगस्त
2012

सौमिक पात्रा (एमआर-9221एन), एएमसी, 12 फरवरी 2012

मंजुनाथ एस आर (एमआर-09322एफ), एएमसी, 25 अप्रैल 2012

हरी प्रसाद सिरिगुरी (एमआर-09331एच), एएमसी, 22 मई 2012

राजीव सिंह (एमआर-08604एन), एएमसी, 30 जुलाई 2012

राहुल शर्मा (एमआर-09267डब्ल्यू), एएमसी, 16 सितम्बर 2012

वासु निकुंज (एमआर-08582ए), एएमसी, 06 फरवरी 2012

जीतेन्द्र कुमार सिंह (एमआर-09288एम), एएमसी, 25 अप्रैल 2012

आशीष कुमार सिंह (एमआर-08605एन), एएमसी, 04 अगस्त
2012

तेजुस ए (एमआर-09317डब्ल्यू), एएमसी, 16 सितम्बर 2012

कप्तान के पद पर

गोपाल सिंह, एमबीबीएस, (एमआर-4960डब्ल्यू), एएमसी, 24 जून
1984 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 01 जून 1984 से हो जाएगी।
(इसमें 23 दिन परख दिन की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति
के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपादान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 मई 1985 में प्रकाशित रक्षा
मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द
किया जाता है)

राजवीर सिंह
ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

थल सेना विभाग

सं. 97, दिनांक 15 फरवरी 2013--राष्ट्रपति महोदय खुश होकर
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गार्ड्स ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार आज्ञा राम (जेसी-403527एन), 01 अप्रैल 2012*

सूबेदार राम राज (जेसी-403239एफ), 04 अप्रैल 2012*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-403458एच), 01 अगस्त 2012

सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-403505पी), 04 अगस्त 2012*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

सूबेदार एम मोहमद इब्राहिम (जेसी-403297एल), 01 सितम्बर
2012*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

सूबेदार एम कालीदास (जेसी-403500डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2012

सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-403579के), 01 सितम्बर 2012

सूबेदार बाग राज (जेसी-403453के), 08 सितम्बर 2012 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रजाले लक्ष्मन बाबु (जेसी-404346पी), 01 जुलाई 2012

नायब सूबेदार रामपाल भुम्बला (जेसी-404365ए), 07 अगस्त 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटिल रामराव सोमा (जेसी-404266एक्स), 09 जुलाई 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार संतोख सिंह (जेसी-404224एल), 23 जुलाई 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जून 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दिलीप कुमार देब (जेसी-404225एन), 23 जुलाई 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ब्रिज श्याम तिवारी (जेसी-404368एन), 27 जुलाई 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार देव दत्त (जेसी-404378एक्स), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार हरदेव सिंह (जेसी-404260डब्ल्यू), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार (जेसी-404372डब्ल्यू), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-404366एच), 05 अगस्त 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह (जेसी-404506के), 10 अगस्त 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरीश कुमार (जेसी-404094एन), 11 अगस्त 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार श्याम सुन्दर (जेसी-404095डब्ल्यू), 11 अगस्त 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पल्ली नारायण रॉब (जेसी-404313के), 14 अगस्त 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जूगेन्द्र सिंह (जेसी-404374एफ), 23 अगस्त 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सदा राम (जेसी-404992ए), 30 अगस्त 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जग नारायण सिंह (जेसी-404310डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-404507एम), 03 सितम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार विद्या निधी (जेसी-404384एल), 06 सितम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार महेश्वर (जेसी-404258वाई), 06 सितम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ईश्वर चन्द्र बासुमात्रे (जेसी-404276एफ), 07 सितम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दारा सिंह (जेसी-404521वाई), 13 सितम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कमल (जेसी-404375के), 17 सितम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सम्मत सिंह नाथवाट (जेसी-404353एल), 18 सितम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरी चन्द्र (जेसी-404470डब्ल्यू), 22 सितम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ब्रिज बिहारी शर्मा (जेसी-404452एन), 22 सितम्बर 2012 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-404311वाई), 25 सितम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मंग लाल (जेसी-404514एच), 26 सितम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहीनदर पॉल गुप्ता (जेसी-404160एल), 28 सितम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-404392के), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार सुभाष चन्दर (जेसी-404393एम), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार पवन कुमार सिंह (जेसी-404525पी), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार ईन्दर सिंह (जेसी-404356वाई), 03 अक्टूबर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कन्हैया लाल (जेसी-404054एम), 04 अक्टूबर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बिक्रम सिंह (जेसी-404573पी), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह (जेसी-404459एक्स), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार राजेश बाबू (जेसी-404297एक्स), 01 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अजय कुमार (जेसी-404339वाई), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार हरनाम सिंह यादव (जेसी-404340एन), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार अनेक कुमार सिंह (जेसी-404430पी), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-404096वाई), 03 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुमेर सिंह चहार (जेसी-404161एन), 03 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गोवीन्द सिंह (जेसी-404394पी), 05 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-404385एन), 07 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गजराज सिंह (जेसी-404424एफ), 07 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार श्री पाल (जेसी-404425के), 07 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जोगीन्दर सिंह (जेसी-404529एल), 09 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-404536एफ), 09 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पंचाल हंसमुख भाई चिमनलाल (जेसी-404536एफ), 09 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-404350एक्स), 19 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मुकेश कुमार (जेसी-404426एम), 19 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शैलेन्द्र कुमार (जेसी-404564एम), 19 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लाल चन्द राम (जेसी-404299एच), 22 नवम्बर 2012 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

सूबेदार (क्लर्क एसडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) रबीन्द्र नाथ बिस्वास (जेसी-404273एन), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) सत्येन्द्र झाँ (जेसी-40429172डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012

मैकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

- हवलदार रमा कांता बारो (सं. 14916904डब्ल्यू अब जेसी-422200के),
19 अक्टूबर 2012 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)
- हवलदार अर्जुन देसाई (सं. 14916974पी अब जेसी-422201एम),
19 अक्टूबर 2012 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)
- हवलदार दिनेश बाबू ए पी (सं. 14916699ए अब जेसी-422202पी),
19 अक्टूबर 2012 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)
- हवलदार राय सुनिल कुमार रामकृष्ण (सं. 14917012एक्स अब जेसी-422203एक्स), 12 नवम्बर 2012 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)
- हवलदार मुल कुमार सिंह (सं. 14917431पी अब जेसी-422204ए),
12 नवम्बर 2012 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)
- हवलदार भैरुण सिंह शेखावत (सं. 14917701वाई अब जेसी-422205एच), 12 नवम्बर 2012 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)
- हवलदार स्वपन कुमार घोष (सं. 14918090एफ अब जेसी-422206एल),
12 नवम्बर 2012 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)
- हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 14918403पी अब जेसी-422207एन),
12 नवम्बर 2012 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)
- हवलदार रवी कुमार (सं. 14916674एन अब जेसी-422208डब्ल्यू),
24 नवम्बर 2012 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)
- हवलदार नरेन्द्रा सिंह (सं. 14917678डब्ल्यू अब जेसी-422209वाई),
03 नवम्बर 2012 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार ईन्द्रेक्ष सिंह (सं. 14916595वाई अब जेसी-422210एन),
16 नवम्बर 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार करतार सिंह (सं. 2990843पी अब जेसी-422211डब्ल्यू),
14 दिसम्बर 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार कुमार नीलू (सं. 14917888डब्ल्यू अब जेसी-422212वाई),
03 नवम्बर 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार करनम रामकृष्णा (सं. 14916718ए अब जेसी-422213एफ),
24 नवम्बर 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 14916770एच अब जेसी-422214के),
24 नवम्बर 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार पी सुरियन (सं. 14920842वाई अब जेसी-422215एम),
02 नवम्बर 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार खेडेकर विजय सिताराम (सं. 14918775ए अब जेसी-422216पी), 12 नवम्बर 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार प्रेम नारायण (सं. 14918869एक्स अब जेसी-422217एक्स),
12 नवम्बर 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार दिलावर सिंह (सं. 14918795एन अब जेसी-422218ए),
12 नवम्बर 2012 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार रविन्दर सिंह (सं. 14920001डब्ल्यू अब जेसी-422219एच),
01 दिसम्बर 2012 *

हवलदार महेश कुमार (सं. 14920214के अब जेसी-422220एक्स),
01 दिसम्बर 2012 *

हवलदार वेन्कटराव डेन्कना (सं. 14920226वाई अब जेसी-422221ए),
01 दिसम्बर 2012 *

हवलदार पाटारे अन्नासाहेब नारायण (सं. 14920531एल अब जेसी-422222एच), 14 दिसम्बर 2012*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)

क्वचित कोर

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार कुलदीप सिंह (जेसी-243329एफ), 19 मई 2011*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जय सिंह (जेसी-243330डब्ल्यू), 23 अप्रैल 2011*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रमेश लाल (जेसी-243817के), 29 जून 2011*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मई 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार संजीवन सिंह (जेसी-244190एफ), 23 जून 2011*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हरविंदर सिंह (जेसी-243331वाई), 04 फरवरी 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अगस्त 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दिप्ती (जेसी-243814डब्ल्यू), 05 अक्टूबर 2011*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार संजय गुंडु गवी (जेसी-243812एल), 13 अक्टूबर 2011*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दलीप सिंह (जेसी-244107वाई), 02 नवम्बर 2011*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार एस विंसेंट (जेसी-243764डब्ल्यू), 14 दिसम्बर 2011*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार आनंद सिंह महार (जेसी-244087डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2011*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दिलावर सिंह (जेसी-243865के), 01 अगस्त 2012

नायब रिसालदार कल्याण सिंह (जेसी-244206एफ), 01 जुलाई 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जसबीर सिंह (जेसी-244669डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

नायब रिसालदार गुरमीत सिंह (जेसी-244357ए), 09 जून 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 फरवरी 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मंजीत सिंह (जेसी-244541एल), 18 अप्रैल 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मार्च 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार आजाद सिंह (जेसी-243667वाई), 02 अप्रैल 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रिध करन जाट (जेसी-244096एक्स), 04 अप्रैल 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अमेदर राम (जेसी-244394एन), 14 मई 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कापसे विजय यामाजी (जेसी-243157एक्स), 08 अगस्त 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अरविन्द कुमार सिंह (जेसी-243259एन), 01 जून 2012

नायब रिसालदार सीता राम (जेसी-245053पी), 22 सितम्बर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार क्रांती कुमार राना (जेसी-245055ए), 08 अक्टूबर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शैलेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-244272के), 09 अक्टूबर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गुरप्रीत सिंह (जेसी-243859डब्ल्यू), 08 अगस्त 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार तेज पाल (जेसी-244158एम), 23 अक्टूबर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 जुलाई 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जितेन्द्र पाण्डे (जेसी-239308एन), 01 अगस्त 2012

नायब रिसालदार सुन्दर प्रसाद (जेसी-243214एन), 27 अगस्त 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार आर कारुप्पु स्वामी (जेसी-243619वाई), 10 अगस्त 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार चौहान भरत कुमार भगवान दास (जेसी-243722के), 01 अगस्त 2012

नायब रिसालदार प्रेम कुमार पी वी (जेसी-243447पी), 18 अक्टूबर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बाबू लाल (जेसी-243490डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2012

नायब रिसालदार भजन दास (जेसी-243660पी), 18 अक्टूबर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार संजय कुमार (जेसी-243688पी), 01 सितम्बर 2012

नायब रिसालदार राज पाल सिंह (जेसी-243902एम), 01 सितम्बर 2012

नायब रिसालदार मुस्ताक अहमद अंसारी (जेसी-244050पी), 01 सितम्बर 2012

नायब रिसालदार जसवीर सिंह (जेसी-244065एक्स), 01 सितम्बर 2012

नायब रिसालदार रामराज प्रजापती (जेसी-244194एक्स), 11 अक्टूबर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शंकरन के (जेसी-244302डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पवार बाला साहेब अप्पा साहेब (जेसी-243555वाई), 01 अक्टूबर 2012

नायब रिसालदार सोलंकी सावु भाई लक्ष्मन भाई (जेसी-243556एफ), 01 अक्टूबर 2012

नायब रिसालदार शेख नौशाद (जेसी-243558एम), 06 दिसम्बर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुग्रीव सिंह (जेसी-243737एम), 01 अक्टूबर 2012

नायब रिसालदार जी सुब्बु राज (जेसी-243771एम), 08 अक्टूबर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-243888एल), 01 अक्टूबर 2012

नायब रिसालदार राजवीर सिंह (जेसी-243889एल), 01 अक्टूबर 2012

नायब रिसालदार रती राम (जेसी-244029एम), 01 अक्टूबर 2012

नायब रिसालदार कुन्ज बिहारी (जेसी-244072एन), 01 अक्टूबर 2012

नायब रिसालदार वेद प्रकाश (जेसी-244115एक्स), 01 अक्टूबर 2012

नायब रिसालदार अरविन्द कुमार अतरिष (जेसी-244295एल), 09 अक्टूबर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजपाल सिंह नौरका (जेसी-244491एल), 07 अक्टूबर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार घीसु सिंह राठोड़ (जेसी-245401एल), 30 अक्टूबर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पुष्पेन्द्र कुमावत (जेसी-243560के), 01 नवम्बर 2012

नायब रिसालदार श्यामवीर (जेसी-243867पी), 01 नवम्बर 2012

नायब रिसालदार राजेश कुमार (जेसी-244019एच), 01 नवम्बर 2012

नायब रिसालदार दीपक कुमार (जेसी-244075एफ), 01 नवम्बर 2012

नायब रिसालदार दिलीप बोरह (जेसी-244338पी), 01 नवम्बर 2012

नायब रिसालदार भुपेन्द्र कुमार (जेसी-244524एल), 22 नवम्बर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जगदीश राम (जेसी-244624डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012

नायब रिसालदार मनोज कुमार चौधरी (जेसी-244625वाई), 25 नवम्बर 2012*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब रिसालदार संतोष कुमार आर (जेसी-243639एम), 01 दिसम्बर 2012

नायब रिसालदार मानिक मैती (जेसी-243640एफ), 01 दिसम्बर 2012

नायब रिसालदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-244117एच), 01 दिसम्बर 2012

सुभ्रत करमाकर
अवर सचिव

वायु सेना

सं. 98, दिनांक 15 फरवरी 2013---राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थायी पदोन्नतियां करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के स्थायी रैंक में

आई (एम) शाखा

डी रमेश कुमार (18733), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

आर रमेश (18735), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

एस रस्तोगी (18728), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

एस ए खान (18740), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

एम वी एम प्रसाद (18737), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

आर मुरलीधर (18741), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

ए रविन्द्रन (18734), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

पी के साहू (18759), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

वी कुमार (18732), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

पी एस एन राव (18731), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

एम गुर्ग (18755), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

आई (एल) शाखा

जी सी सरकार (18745), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

आर के मिश्रा (18743), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

डी के सलूजा (18753), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

डी एस राजपूत (18757), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

आई (एम) शाखा

टी एस चन्द्रशेखर (18766), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

आई (एल) शाखा

एस एस वली (18775), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

पी वेंकटेश्वरलू (18770), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

आर के डोगरा (18769), 15 फरवरी 2012 से प्रभावी

लेखा शाखा

एस एम सचदेव (16467), 11 जून 2007 से प्रभावी

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

संगीता सीकरी (25185), शैलजा शर्मा (25184), शर्मा एन (25179), रचना पुरोहित बट्ट (25182), ममता धारवाल (25180), आशा वशिष्ठ (25183)

आई (एल) शाखा

वाई एम जोशी (25269), अवानी पाण्डेय (25267), 06 जुलाई 2011 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

पी वी देशपण्डे (24251), 21 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

संजीव वर्मा (22721), 18 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

एल के मिश्रा (25011), 20 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

आई (एल) शाखा

जगदीश बी के (25265), 05 जुलाई 2010 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

सुधांशु दुबे (24535), 21 जून 2010 से प्रभावी

अल्प सेवा कमीशन

आई (एम) शाखा

के पी भट्ट (24145), 26 मई 2008 से प्रभावी

आई (एल) शाखा

सी आर वी सुब्रमनीयन (20829), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

फ्लाइट लेफ्टि से स्क्वाड्रन लीडर के स्थायी रैंक पर

एफ (पी) शाखा

एस शर्मा (28565), जे यादव (28566), 18 जून 2011 से प्रभावी

मिताली डबास (28568), 18 जून 2011 से प्रभावी

सी किशोर (28027), 19 जून 2011 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

नन्दी टी (27238), 21 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

जी जयाचन्द्रन नायर (28293), 18 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

लेखा शाखा

वी के ए किरन (24295), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

अल्प सेवा कमीशन

प्रशासनिक शाखा

ए के कौशिक (23972), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

फ्लाईंग अफसर से फ्लाइट लेफ्ट के मूल रैंक पर

स्थायी कमीशन

एफ (पी) शाखा

एम के सिंह (29698), 16 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

मेट शाखा

एस एस इलामुरुगु (29670), वी के सिन्हा (29671), 21 जून 2010 से प्रभावी

आई (एम) शाखा

एम काशीविश्वनाथन (28423), पी टी राजा (28418), 29 जून 2005 से प्रभावी

आई (एल) शाखा

के गृजीव रंजन (28436), एस एस साहु (28434), 29 जून 2005 से प्रभावी

तरुण खरे
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर-3(डी)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 99, दिनांक 18 फरवरी 2013--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी हुई तिथि (पूर्वाह्न) से दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में पदोन्नति करते हैं :-

डी भाष्कर, एएसएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

पी चन्द्रशेखर, एएसएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

पी बी सरोजिनी, एएसएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एएसआर मुर्शी, एएसएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

वाई सम्बासिवा राव, एएसएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

पी त्यागाराजन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस मनिएम (अनु जा), सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

डी एम सेकर (अनु जा), सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस मनी (अनु जा), सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

पी वर्धन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस अन्नादुराई (अनु जा), सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एम गुनसेकरन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

ए केसवारामा राव, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

सी कृष्णासामी, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

आर विनोभाकृष्णन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस कन्दावेलू, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एन वी नन्दाकुमार, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

राजेश्वरी चम्बू, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एल गोधामन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

जी उमापथी, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

के विश्वनाथन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

के कोथोदन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

पी नरसिम्हन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस विनयागम, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

जी सेनगुटुवन (अनु जा), सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

के एस उलगानाथन (अनु जा), सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

जी थिरूनावुक्कारासू, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

आर बालासुब्रामनियन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

आर पलानि, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

मनदीम सोमेश्वरन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

जी एम गनेसन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

पी पन्नीरसेलवम, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

टी प्रकाश कुमार, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एच एन थुलसी अम्माल, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

पी वर्धन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

डी मनोहरन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

के पेरुमल, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एस मोहन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

के चन्द्रन (अनु जा), सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एस मुरुगेसन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एस गिरिधरन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

ई राजावेल, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

डेविड रामाचन्द्रन, सीवीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एस दिल्ली बाबू, सीवीआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

के पोन्नु स्वामी (अनु जा), सीवीआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

एस वेनुगोपाल, सीवीआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

एस थोमस, सीवीआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

प्रिया वेंकटेश, सीवीआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

एस रमेश (अनु जा), डीएआरई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

सोहन सिंह भाटी, डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

मदन नरेन्द्र कुमार, डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

बी बी टाक, डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

लाला राम मेघवाल (अनु जा), डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

रसिक लाल चौहान (अनु जा), डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

मांगी लाल (अनु जा), डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

पवन कुमार (अनु जा), डीएलजे, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

मधु सूदन, डीएलजे, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

के आर रानी, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

के लक्ष्मीराज्यम, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

डी उज्ज्वला, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस शंकर, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एन लीला माधुरी, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एन वी नागेश्वर राव, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

केसीएम गुप्ता, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

जी नरसिम्लू (अनु जा), डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

बीवीएसआरकेवी अक्की राजू, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

यू शकुन्तला, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

बी एस राजेन्द्र, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

वी नरसिम्हा रेड्डी, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

वी दुर्गा कुमारी, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

बी यादगिरि, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

नीरजा एस गोपी, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

सी प्रभाकर चारी, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

ए किरितम्मा, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

टीएसवी सुब्रामन्यम, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

मो अब्दुल हाय, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

सत्यनारायण सिंह, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

ए उमा देवी, डीएलआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

डी वेनुगोपालाचारी, डीएलआरएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

जी जी थूल (अनु जा), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

वाई श्री राम दास, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एम जयारामलू, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

पी बी मिस्त्री (अनु जा), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

डी मुस्तैया, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

यू लीला कुमारी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

के बी नागमैह, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एम प्रभाकर रेड्डी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

जी एच रंगा राव, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

के रमेश बाबू (अनु जा), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

मो मुस्तफा अली, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

बी इंदिरा, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस मोहन राव, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

ए लक्ष्मी देवी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एल वेंकटैया (अनु जा), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

ए राजू, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

टी वेंकट सुब्बा राव, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

बी सुकन्या देवी, डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

पी भूदेह (अनु जा), डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

एस गोपाल राव (अनु जा), डीआरडीएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

बी नरसिम्हा राजू, डीआरडीएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

पी सुब्बा राव, डीआरडीएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

ए बलराज, डीआरडीएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

एस डोले (अनु ज जा), डीआरएलटी, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

आर शर्मा, डीआरएलटी, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

आर पी दिवाकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

डी के जाधव (अनु ज जा), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

वी डी दैवस्कर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एम एच गिजारे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एम ए तपस्वी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

बी एस सलुन्के (अनु जा), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस के ताडकोड, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

वी एस वानी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस डी शेलर (अनु जा), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

आर ई जगतप, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

वी डी गाड्कवाड, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस एन ईरान्डे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

सी एन घावटे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस ए मन्ढारे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

बी डी धीरे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

सी पी सेट्टी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस एस आधव, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस वी रासकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एम यू शेख, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एस बी मुधोलकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

आर के कश्यप, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एन जी बाधमारे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

डी पी श्रीवास्तव, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

आर एन गाईकवाड, एचईएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

डी आर ढेन्डे (अनु जा), एचईएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

बी पी उप्रेती, आईटीएम, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

राजीव गोयल, एलएसटीईसी, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

ऊषा सरना, एलएसटीईसी, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

पी कृष्णन, एलएसटीईसी, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

पी मस्थान राव (अनु जा), एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

पी विश्वनाथन, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एल वेंकटरमन, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

के अरुणा, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

बी अरुणा कुमारी (अनु जा), एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एल सी दास (अनु जा), एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

के सेशागिरि राव, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

टी वेंकटाचारी, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

सी एच श्रीनिवास, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एम नागा राजू (अनु जा), एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

सी एच सुभाकरराव (अनु जा), एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

मलिक मोहम्मद, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एम वी रमन राव, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

के नागेश्वर राव (अनु ज जा), एनएसटीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

जी धनमजयाराव (अनु जा), एनएसटीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

सीएचकेवी सीताराम, एनएसटीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

सी एच सन्यासी राजू, एनएसटीएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

जी रमैह (अनु जा), एनएसटीएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

ई डी महाजन, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

बी बी अवाती, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस एम कुलकर्णी, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस एम पवार, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

सी पी पाटेकर (अनु जा), आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

ए एस मुदलियार, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

वी आर जलवाडी, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एन पी देशमुख, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एन मुधुसुदनन, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस एस तावरे, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

के ए पाटिल, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

पी बी धावलेकर, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एन के गारिया (अनु जा), आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

वी एस ककटिकर, आर एण्ड डीई (ई), तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

एस आर तोडकर, आर एण्ड डीई (ई), वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

एस पी गोसाई, आर एण्ड डीई (ई), वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

एन सुन्दर, एसपीआईसी, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2012

अजय कुमार, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

गीता सक्सेना, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2012

एस के शर्मा, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2012

भारत बीर, एसएसपीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2012

बी बी शर्मा
संयुक्त निदेशक
(कार्मिक-टीसी)

सेना शाखा

सं. 100, दिनांक 18 फरवरी 2013--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टि कर्नल के पद पर

शुद्धि-पत्र

दीपक कुमार खुखर (एमआर-08099डब्ल्यू), एएमसी-11 अक्टूबर 2010

लेफ्टि कर्नल दीपक खुखर (एमआर-08099डब्ल्यू), के लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर प्रमाणित अधिसूचना 24 जनवरी 2011 को गलती से पारित की गयी और यह 09 जुलाई 2011 को प्रकाशित हो गयी है, चूंकि यह अफसर 07 जून 2010 से प्रतिनियुक्ति पर थे।

सीजीएस दमन में प्रतिनियुक्ति पर एक टेनूर के लिए अफसर की डीजिएमएस (आर्मी) के पत्र संख्या बी/567413/डीजिएमएस-1(बी) दिनांक 02 अगस्त 2011 के तहत की गयी थी जिसका संशोधन करके दिनांक 19 मार्च 2012 के समसंख्यांक पत्र के तहत एक नया पोस्टिंग आर्डर जारी किया गया था।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09 जुलाई 2011 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रह किया जाता है)

राजवीर सिंह
ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मास)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th March 2013

(ARMY BRANCH)

No. 95, dated 14th February 2013—The President is pleased to make the appointment as under :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Hemant Bhardwaj (MR-08827L), AMC, 16 Dec 2005 with seniority for pay and promotion from 16 Dec 2002 [this includes 36 months for antedate for PG Degree (Forensic Medicine) which will not count for gratuity]

(MoD Notification published in Gazette of India dated 05 Dec 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

RAJVIR SINGH

Brig

Dy DGAFMS (HR)

(ARMY BRANCH)

No. 96, dated 14th February 2013—The President is pleased to make the promotion of undermentioned AMC officers with effect from the date as indicated against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

WG Cdr To Gp Capt (Time Scale)

Wg Cdr A Joshi (MR-05662M) (AF-19335K), 01 Jun 2012

Wg Cdr P K Sharma (MR-06458A) (AF-19323S), 15 Jun 2012

Wg Cdr Sadhna Joshi (MR-06461A) (AF-19978G), 02 Jul 2012

Sqn Ldr to be Wg Cdr

Vijai M N (MR-08285M) (AF-26064), AMC, 11 Jan 2012

Santosh Kumar SH (MR-08219K) (AF-26472), AMC, 04 Jul 2012

Rashmi More (MR-07477X) (AF-26044N), AMC, 13 Jul 2012

Maj to be Lt Col

Bhasker Mukherjee (MR-07420H), AMC, 15 Feb 2012

Sonali Amit Yadav (MR-08525Y), AMC, 29 Mar 2012

Dharmendra Prasad Singh (MR-08526F), AMC, 28 Aug 2012

Gopal Singh (MR-4960W), AMC, 01 Jun 1998

(MoD Notification published in Gazette of India dated 14 Nov 1998 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Vipin Kawatra (MR-09055L) (75942W), AMC, 22 Jan 2011

To be Maj

Gopal Singh (MR-04960W), AMC, 01 Jun 1989

(MoD Notification published in Gazette of India dated 24 Mar 1990 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Hemant Bhardwaj (MR-08827L), AMC, 16 Dec 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 19 Jun 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Rituraj Kotaki (MR-09323K), AMC, 26 Aug 2012

Kunal Kishore (MR-08602H), AMC, 30 Jul 2012

Vittal Tadakanahalli (MR-09278H), AMC, 12 Aug 2012

Ashwani K Pandey (MR-08603L), AMC, 11 Aug 2012

Soumik Patra (MR-09221N), AMC, 12 Feb 2012

Manjunath S R (MR-09322F), AMC, 25 Apr 2012

Hari Prasad Sirigiri (MR-09331H), AMC, 22 May 2012

Rajiv Singh (MR-08604N), AMC, 30 Jul 2012

Rahul Sharma (MR-09267W), AMC, 16 Sep 2012

Vasu Nikunj (MR-08582A), AMC, 06 Feb 2012

Jitendra Kumar Singh (MR-09288M), AMC, 25 Apr 2012

Ashish Kumar Singh (MR-08605N), AMC, 04 Aug 2012

Tejus A (MR-09317W), AMC, 16 Sep 2012

To be Capt (& Equivalent)

Gopal Singh, MBBS, (MR-4860W), AMC, 24 Jun 1984 with seniority for pay and promotion from 01 Jun 1984 (This includes condonation of 23 days internship period from 01 Jun 1984 to 23 Jun 1984) which will count for pension but not for gratuity). Min of Def Notification No. 22207 dt 08 Jan 1985 published in the Gazette of India dt 04 May 1985, insofar as it relates to the above mentioned officer is hereby cancelled

RAJVIR SINGH

Brig

DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 97, dated 15 February 2013—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Sub Maj

Sub Agya Ram (JC-403527N), 01 Apr 2012

Sub Ram Raj (JC-403239F), 04 Apr 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces wef 01 Apr 2012)

Sub Mahabir Singh (JC-403458H), 01 Aug 2012

Sub Lakhwinder Singh (JC-403505P), 04 Aug 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

Sub M Mohamad Ibrahim (JC-403297L), 01 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces wef 01 Apr 2012)

Sub M Kalidoss (JC-403500W), 01 Sep 2012

Sub Ashok Kumar (JC-403579K), 01 Sep 2012

Sub Bag Raj (JC-403453K), 08 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

To be Sub

Nb Sub Rajale Laxman Babu (JC-404346P), 01 July 2012

Nb Sub Rampal Bhumbla (JC-404365A), 07 Aug 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2012)

Nb Sub Patil Ramrao Soma (JC-404266X), 09 Jul 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 17 Apr 2012)

Nb Sub Santokh Singh (JC-404224L), 23 Jul 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 08 Jun 2012)

Nb Sub Dilip Kumar Deb (JC-404225N), 23 Jul 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2012)

Nb Sub Brij Shyam Tiwari (JC-404368N), 27 Jul 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 04 Jun 2012)

Nb Sub Dev Datt (JC-404378X), 01 Aug 2012

Nb Sub Hardev Singh (JC-404260W), 01 Aug 2012

Nb Sub Virendra Kumar (JC-404372W), 01 Aug 2012

Nb Sub Raghubir Singh (JC-404366H), 05 Aug 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

Nb Sub Prithwi Singh (JC-404506K), 10 Aug 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

Nb Sub Harish Kumar (JC-404094N), 11 Aug 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

Nb Sub Shyam Sunder (JC-404095W), 11 Aug 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

Nb Sub Palli Narayana Rao (JC-404313K), 14 Aug 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

Nb Sub Jugendra Singh (JC-404374F), 23 Aug 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

Nb Sub Sada Ram (JC-403992A), 30 Aug 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Apr 2012)

Nb Sub Jag Narayana Singh (JC-404310W), 01 Sep 2012

Nb Sub Ajit Singh (JC-404507M), 03 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

Nb Sub Vidya Nidhi (JC-404384L), 06 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2012)

Nb Sub Maheshwar (JC-404258Y), 06 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2012)

Nb Sub Iswar Chandra Basumatary (JC-404276F), 07 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 12 Jul 2012)

Nb Sub Dara Singh (JC-404521Y), 13 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2012)

Nb Sub Kamal (JC-404375K), 17 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2012)

Nb Sub Sampat Singh Nathawat (JC-404353L), 18 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2012)

Nb Sub Hari Chandra (JC-404470W), 22 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2012)

Nb Sub Brij Bihari Sharma (JC-404452N), 22 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2012)

Nb Sub Balbir Singh (JC-404311Y), 25 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 16 Sep 2012)

Nb Sub Mang Lal (JC-404514H), 26 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 28 Jul 2012)

Nb Sub Mohinder Paul Gupta (JC-404160L), 28 Sep 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2012)

Nb Sub Ranjit Singh (JC-404392K), 01 Oct 2012

Nb Sub Subhash Chander (JC-404393M), 01 Oct 2012

Nb Sub Pawan Kumar Singh (JC-404525P), 01 Oct 2012

Nb Sub Inder Singh (JC-404356Y), 03 Oct 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 23 Sep 2012)

Nb Sub Kanhaiya Lal (JC-404054M), 04 Oct 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Oct 2012)

Nb Sub Bikram Singh (JC-404573P), 01 Nov 2012

Nb Sub Prathwi Singh (JC-404459X), 01 Nov 2012

Nb Sub Rajesh Babu (JC-404297X), 01 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 11 Sep 2012)

Nb Sub Ajaya Kumar (JC-404339Y), 01 Nov 2012

Nb Sub Harnam Singh Yadav (JC-404340N), 01 Nov 2012

Nb Sub Anek Kumar Singh (JC-404430Y), 01 Nov 2012

Nb Sub Ashok Kumar (JC-404096Y), 03 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2012)

Nb Sub Sumer Singh Chahar (JC-404161N), 03 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2012)

Nb Sub Govind Singh (JC-404394P), 05 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2012)

Nb Sub Kamal Singh (JC-404385N), 07 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Oct 2012)

Nb Sub Gajraj Singh (JC-404424F), 07 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Oct 2012)

Nb Sub Shri Pal (JC-404425K), 07 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2012)

Nb Sub Joginder Singh (JC-404529L), 09 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2012)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-404536F), 09 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2012)

Nb Sub Panchal Hasamukh Bhai Chimanlal (JC-404298A), 14 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 17 Sep 2012)

Nb Sub Narendra Singh (JC-404350X), 19 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2012)

Nb Sub Mukesh Kumar (JC-404426M), 19 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2012)

Nb Sub Salinder Kumar (JC-404564N), 19 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Nov 2012)

Nb Sub Lal Chand Ram (JC-404299H), 22 Nov 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Oct 2012)

To be Sub (Clk SD)

Nb Sub/Clk (SD) Rabindra Nath Biswas (JC-404273N), 01 Aug 2012

Nb Sub/Clk (SD) Styendra Jha (JC-404291W), 01 Oct 2012

The Mechanised Infantry Regiment

To be Naib Subedar

Hav Rama Kanta Baro (No. 14916904W now JC-422200K), 19 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Arjun Desai (No. 14916974P now JC-422201M),
19 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Dinesh Babu AP (No. 14916699A now JC-422202P),
19 Oct 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Rai Sunil Kumar Ramkrishan (No. 14917012X now
JC-422203X), 12 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Mool Kumar Singh (No. 14917431P now JC-
422204A), 12 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Bhairun Singh Shekhawat (No. 14917701Y now
JC-422205H), 12 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Swapan Kumar Ghosh (No. 14918090F now JC-
422206L), 12 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ishwar Singh (No. 14918403P now JC-422207N),
12 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ravi Kumar (No. 14916674N now JC-422208W),
24 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Narendra Singh (No. 14917678W now JC-422209Y),
03 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Oct
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Indresh Singh (No. 14916595Y now JC-422210N),
16 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kartar Singh (No. 2990843P now JC-422211W),
14 Dec 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kumar Neelu (No. 14917888W now JC-422212Y),
03 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Karanam Ramakrishna (No. 14916718A now JC-
422213F), 24 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Laxman Singh (No. 14916770H now JC-422214K),
24 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2012 without effect on pay and allowances)

Hav P Sooriyan (No. 14920842Y now JC-422215M),
02 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Khedekar Vijay Sitaram (No. 14918775A now JC-
422216P), 12 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Prem Narayan (No. 14918869X now JC-422217X),
12 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Dilawar Singh (No. 14918795N now JC-422218A),
12 Nov 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ravinder Singh (No. 14920001W now JC-422219H),
01 Dec 2012*

Hav Mahesh Kumar (No. 14920214K now JC-422220X),
01 Dec 2012*

Hav Venkatarao Donkana (No. 14920226Y now JC-
422221A), 01 Dec 2012*

Hav Patare Annasaheb Narayan (No. 14920531L now
JC-422222H), 14 Dec 2012*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2012 without effect on pay and allowances)

ARMD Corps

To be Subs Ris

Nb Ris Kuldeep Singh (JC-243329F), 19 May 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 13 Apr 2011
without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jai Singh (JC-243330W), 23 Apr 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 13 Apr 2011
without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ramesh Lal (JC-243817K), 29 Jun 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 31 May 2011
without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sanjeevan Singh (JC-244190F), 23 Jun 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Harwinder Singh (JC-243331Y), 04 Feb 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 25 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Dipty (JC-243814W), 05 Oct 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sanjay Gundu Gavi (JC-243812L), 13 Oct 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 05 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Dalip Singh (JC-244107Y), 02 Nov 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 25 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris S Vincent (JC-243764W), 14 Dec 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Anand Singh Mahar (JC-244085W), 09 Dec 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Dilawar Singh (JC-243867K), 01 Aug 2012

Nb Ris Kalyan Singh (JC-244206F), 01 Jul 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jasbir Singh (JC-244669W), 01 Feb 2012

Nb Ris Gurmeet Singh (JC-244357A), 09 Jun 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 10 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Manjit Singh (JC-244541L), 18 Apr 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 09 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Azad Singh (JC-243667Y), 02 Apr 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ridh Karan Jat (JC-244096X), 04 Apr 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ameda Ram (JC-244394N), 14 May 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 May 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kapse Vijay Yamaji (JC-243157X), 08 Aug 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Arvind Kumar Singh (JC-243259N), 01 Jun 2012

Nb Ris Sita Ram (JC-245053P), 22 Sep 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kranti Kumar Rana (JC-245055A), 08 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sailendra Kumar Singh (JC-244272K), 09 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 26 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Gurpreet Singh (JC-243859W), 08 Aug 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Tejpal (JC-244158M), 23 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 17 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jitendra Pandey (JC-239308N), 01 Aug 2012

Nb Ris Sundar Prasad (JC-243214N), 27 Aug 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris R Karuppu Samy (JC-243619Y), 10 Aug 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Chauhan Bharat Kumar Bhagavan Das (JC-243722K), 01 Aug 2012

Nb Ris Prem Kumar PV (JC-243447P), 18 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Babu Lal (JC-243490W), 01 Sep 2012

Nb Ris Bhajan Dass (JC-243660P), 18 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sanjay Kumar (JC-243688P), 01 Sep 2012

Nb Ris Raj Pal Singh (JC-243902M), 01 Sep 2012

Nb Ris Mustak Ahmed Ansari (JC-244050P), 01 Sep 2012

Nb Ris Jasvir Singh (JC-244065X), 01 Sep 2012

Nb Ris Ramraj Prajapati (JC-244194X), 11 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sankaran K (JC-244302W), 06 Sep 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Pawar Bala Saheb Appa Saheb (JC-243555Y), 01 Oct 2012

Nb Ris Solanki Savu Bhai Laxman Bhai (JC-243556F), 01 Oct 2012

Nb Ris Sekh Naushad (JC-243558M), 06 Dec 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sugreev Singh (JC-243777M), 01 Oct 2012

Nb Ris G Subburaj (JC-243771M), 08 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Surendra Singh (JC-243888L), 01 Oct 2012

Nb Ris Rajveer Singh (JC-243889N), 01 Oct 2012

Nb Ris Rati Ram (JC-244029M), 01 Oct 2012

Nb Ris Kunj Bihari (JC-244072N), 01 Oct 2012

Nb Ris Ved Parkash (JC-244115X), 01 Oct 2012

Nb Ris Arvind Kumar Atrish (JC-244295L), 09 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rajpal Singh Naurka (JC-244491L), 07 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ghisu Singh Rathore (JC-245401L), 30 Oct 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Pushpendra Kumawat (JC-243560K), 01 Nov 2012

Nb Ris Shyamvir (JC-243867P), 01 Nov 2012

Nb Ris Rajesh Kumar (JC-244019H), 01 Nov 2012

Nb Ris Deepak Kumar (JC-244075F), 01 Nov 2012

Nb Ris Dilip Boruah (JC-244338P), 01 Nov 2012

Nb Ris Bhupendra Kumar (JC-244524L), 22 Nov 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jagdish Ram (JC-244624W), 01 Nov 2012

Nb Ris Manoj Kumar Choudhary (JC-244625Y), 25 Nov 2012*

*(Granted seniority in the Rank of Ris wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Santosh Kumar R (JC-243639M), 01 Dec 2012

Nb Ris Manik Maiti (JC-243640F), 01 Dec 2012

Nb Ris Rajendar Singh (JC-244117H), 01 Dec 2012

SUBHABARTA KARMAKAR

Under Secy

AIR FORCE

No. 98, dated 15th February, 2013—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

INDIAN AIR FORCE

Wg Cdr To Be Subs Gp Capt (TS)

AE (M) BRANCH

A Ravindran (18734), wef, 15 Feb 2012

R Ramesh (18735), wef, 15 Feb 2012

S Rastogi (18728), wef, 15 Feb 2012

SA Khan (18740), wef, 15 Feb 2012

MVM Prasad (18737), wef, 15 Feb 2012

M Gurg (18755), wef, 15 Feb 2012

R Muralidhar (18741), wef, 15 Feb 2012

PK Sahoo (18759), wef, 15 Feb 2012

D Ramesh Kumar (18733), wef, 15 Feb 2012

V Kumar (18732), wef, 15 Feb 2012

PSN Rao (18731), wef, 15 Feb 2012

AE(L) BRANCH

GC Sarkar (18745), wef, 15 Feb 2012

RK Mishra (18743), wef, 15 Feb 2012

DK Saluja (18753), wef, 15 Feb 2012

DS Rajput (18757), wef, 15 Feb 2012

AE(M) BRANCH

TS Chandrashekar (18766), wef, 15 Feb 2012

AE(L) BRANCH

SS Wali (18775), wef, 15 Feb 2012

P Venkateshwarlu (18770), wef, 15 Feb 2012

RK Dogra (18769), wef 15 Feb 2012

ACCTS BRANCH

SM Sachdev (16467), wef, 11 Jun 2007

Sqn Ldr to be Subs Wg Cdr

ADM BRANCH

Sangeeta Sikri (25185), Shailja Sharma (25184), Sharma N (25179), Rachna Purohit Batta (25182), Mamta Dharwal (25180), Asha Vashist (25183), wef 20 Jun 2011

AE (L) BRANCH

YM Joshi (25269), Avani Pandey (25267) wef 06 Jul 2011

ADM BRANCH

PV Deshpande (24251), wef 21 Dec 2009

F(P) BRANCH

Sanjeev Verma (22721), wef 18 Dec 2008

LK Mishra (25011), wef 20 Dec 2010

Jagadish BK (25265), wef 05 Jul 2010

ADM BRANCH

Sudhanshu Dubey (24535), Wef 21 Jun 2010

SHORT SERVICE COMMISSION

AE(M) BRANCH

KP Bhat (24145), wef 26 May 2008

AE(L) BRANCH

CRV Subramanian (20829), wef 16 Dec 2004

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

F(P) BRANCH

S Sharma (28565), J Yadav (28566), wef 18 Jun 2011

Mitali Dabass (28568), wef 18 Jun 2011

C Kishore (28027), wef 19 Jun 2011

ADM BRANCH

Nandy T (27238), wef 21 Dec 2008

G Jayachandran Nair (28293), wef 18 Dec 2010

ACCTS BRANCH

VKA Kiran (24295), wef 16 Dec 2004

SHORT SERVICE COMMISSION

ADM BRANCH

AK Kaushik (23972) wef 16 Dec 2004

Fg Offr to be Subs Flt Lt

PERMANENT COMMISSION

F(P) BRANCH

MK Singh (29698), wef 16 Dec 2009

MET BRANCH

SS Elamurugu (29670), VK Sinha (29671), wef 21 Jun 2010

AE(M) BRANCH

M Kasiviswanathan (28423), PT Raja (28418), wef 29 Jun 2005

AE(L) BRANCH

K Rajeev Ranjan (28436), SS Sahu (28434), wef 29 Jun 2005

TARUN KHARE

Wg Cdr

Jt Dir

Personnel Officers-3(D)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 99, dated 18th February, 2013—The President is pleased to promote the following officers from existing grade wef the date (F/N) as mentioned against each :—

D Bhaskar, ASL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

P Chandrasekhar, ASL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

P B Sarojini, ASL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

A S R Murthy, ASL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

Y Sambasiva Rao, ASL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

P Thiagarajan, CVRDE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

S Maniyam (SC), CVRDE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

D M Sekar (SC), CVRDE, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

S Mani (SC), CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

P Varadhan, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

S Annadurai (SC), CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

M Gunasekaran, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

A Kesavarama Rao, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

C Krishnasamy, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

R Vinobhakrishnan, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

S Kandavelu, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

N V Nandakumar, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

Rajeswari Vembu, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

L Gowdhaman, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

G Umapathy, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

K Viswanathan, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

K Kothandan, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

P Narasimhan, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

S Vinayagam, CVRDE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

G Senguttuvan (SC), CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

K S Ulaganathan (SC), CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

G Thirunavukkarasu, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

R. Balasubramanian, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

R Palani, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

Mandem Someswaran, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

G M Ganesan, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

P Panneerselvam, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

T Prakaskumar, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

H N Thulasi Ammal, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

P Varadan, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

D Manoharan, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

K Perumal, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

S Mohan, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

K Chandran (SC), CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

S Murugesan, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

S Giridharan, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

E Rajavel, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

David Ramachandran, CVRDE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

S Dilli Babu, CVRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

K Ponnu Swamy (SC), CVRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

S Venugopal, CVRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

S Thomas, CVRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

Priya Venkatesh, CVRDE, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

S Ramesh (SC), DARE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

Sohan Singh Bhati, DLJ, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

Madan Narendra Kumar, DLJ, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

B B Tak, DLJ, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

Lala Ram Meghwal (SC), DLJ, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

Rasik Lal Chouhan (SC), DLJ, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

Mangi Lal (SC), DLJ, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

Pawan Kumar (SC), DLJ, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

Madhu Sudan, DLJ, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

K R Rani, DLRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

K Lakshmirajyam, DLRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

D Ujjwala, DLRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

S Shankar, DLRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

N Leela Madhuri, DLRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

N V Nageshwar Rao, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

K C M Gupta, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

G Narasimlu (SC), DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

B V S R K V Akki Raju, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

U Shakuntala, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

B S Rajender, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

V Narasimha Reddy, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

V Durga Kumari, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

B Yadagiri, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

Neeraja S Gopi, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

C Prabhakara Chary, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

A Kireetamma, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

T S V Subrahmanyam, DLRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

Mohd Abdul Hai, DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

Satyanarayana Singh, DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

A Uma Devi, DLRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

D Venugopalachary, DLRL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

G G Thool (SC), DRDL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

Y Sree Rama Dass, DRDL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

M Jayaramulu, DRDL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

P B Mistry (SC), DRDL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

D Mustaiiah, DRDL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

U Leela Kumari, DRDL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

K B Nagamiah, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

M Prabhakar Reddy, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

G H Ranga Rao, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

K Ramesh Babu (SC), DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

Mohd Mustafa Ali, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

B Indira, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

S Mohan Rao, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

A Lakshmi Devi, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

L Venkataiah (SC), DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

A Raju, DRDL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

T Venkata Subba Rao, DRDL, TO, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

B Sukanya Devi, DRDL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

P Bhoodaiah (SC), DRDL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

S Gopal Rao (SC), DRDL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

B Narasimha Raju, DRDL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

P Subba Rao, DRDL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

A Balraj, DRDL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

S Doley (ST), DRDL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

R Sarma, DRDL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

R P Diwakar, HEMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

D K Jadhav (ST), HEMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

V D Deuskar, HEMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

M H Gijare, HEMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-), GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

M A Tápawí, HEMRL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-), GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

B S Salunke (SC), HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

S K Tadkod, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

V S Wani, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

S D Shelar (SC), HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

R E Jagtap, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

V D Gaikwad, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

S N Erande, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

C N Ghavate, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

S A Mandhre, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

B D Dhere, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

C P Shetty, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

S S Adhav, HEMRL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

S V Raskar, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

M U Shaikh, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

S B Mudholkar, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

R K Kashyap, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

N G Waghmare, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

D P Srivastava, HEMRL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

R N Gaikwad, HEMRL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

D R Dhende (SC), HEMRL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

B P Upreti, ITM, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

Rajeev Goyal, LASTEC, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

Usha Sarna, LASTEC, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

P Krishnan, LASTEC, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

P Masthan Rao (SC), NSTL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

P Viswanathan, NSTL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

L Venkataramana, NSTL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

K Aruna, NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

B Aruna Kumari (SC), NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

L C Das (SC), NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

K Seshagiri Rao, NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

T Venkatachari, NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

C H Srinivas, NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

M Naga Raju (SC), NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

C H Subhakararao (SC), NSTL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

Malik Mohammed, NSTL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

M V Ramana Rao, NSTL, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

K Nageswara Rao (ST), NSTL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

G Dhanamjaya Rao (SC), NSTL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

C H K V Sitaram, NSTL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

C H Sanyasi Raju, NSTL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

G Ramaiah (SC), NSTL, TA-C, TO, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

E D Mahajan, R&DE(E), TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

B B Awati, R&DE(E), TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

S M Kulkarni, R&DE(E), TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

S M Pawar, R&DE(E), TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

C P Patekar (SC), R&DE(E), TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

A S Mudliyar, R&DE(E), TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

V R Jalwadi, R&DE(E), TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

N P Deshmukh, R&DE(E), TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

N Madhusudan, R&DE(E), TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

S S Taware, R&DE(E), TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

K A Patil, R&DE(E), TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

P B Dhavalekar, R&DE(E), TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

N K Garia (SC), R&DE(E), TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

V S Kaktikar, R&DE(E), TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

S R Todkar, R&DE(E), STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

S P Gosain, R&DE(E), STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

N Sunder, SPIC, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2012

Ajay Kumar, SSPL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

Geeta Saxena, SSPL, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2012

S K Sharma, SSPL, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2012

Bharat Veer, SSPL, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2012

B B SHARMA
Jt Dir (Pers-TC)

ARMY BRANCH

No. 100, dated 18th February 2013—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

(CORRIGENDUM)

Deepak Kumar Khukhar (MR-08099W), AMC, 11 Oct 2010

DGN regarding Prom to the rank of Lt Col in respect of Lt Col Deepak Kumar Khukhar (MR-08099W) was erroneously vetted by your office on 24 Jan 2011 and it has been published on 09 Jul 2011 as the officer was on deputation from 07 Jun 2010.

The posting of officer earlier issued for one tenure on deputation to CGAS Daman vide DGMS (Army) letter No. B/567413/DGMS-1(b) dt 02 Aug 2011 was amended and issued a new posting order even No dated 19 Mar 2012.

(MoD Notification published in Gazette of India dated 09 Jul 2011 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

RAJVIR SINGH
Brig
Dy DGAfms (HR)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013